


पत्र - 244/अचारा/अनुसूचक/2018-19 | दिनांक - 15-4-2018
सुगम/दुर्गम स्थलवार स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण- अनुसूचक

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	इकाई का नाम	सुगम/दुर्गम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मु०कृ०अ० देहरादून		सुगम				
		रायपुर	सुगम	1	1	0	
		कालसी	सुगम	1	0	1	
		राहसपुर	सुगम				
2	मु०कृ०अ० हरिद्वार		सुगम				
		रूडकी	सुगम	1	1	0	
		बहादुराबाद	सुगम				
3	मु०कृ०अ० उत्तरकाशी		दुर्गम				
		उत्तरकाशी	दुर्गम	1	0	1	
		गोरी	दुर्गम				1 अधिसंख्यक
		बडकोट	दुर्गम	1	0	1	
4	मु०कृ०अ० टिहरी		सुगम				
		नरेन्द्रनगर	सुगम	1	1	0	
		नई टिहरी	दुर्गम	1	1	0	
		कीर्तिनगर	दुर्गम	1	1	0	
		चम्बा	दुर्गम				1 अधिसंख्यक
5	मु०कृ०अ० रुद्रप्रयाग		दुर्गम				
		अगरस्थमुनि	दुर्गम	1	0	1	
6	मु०कृ०अ० चमोली		दुर्गम				
		गोपेश्वर	दुर्गम	1	0	1	
		कर्णप्रयाग	दुर्गम	1	0	1	
		थराली	दुर्गम				1 अधिसंख्यक
7	मु०कृ०अ० पौड़ी		दुर्गम				
		पौड़ी	दुर्गम	1	0	1	
		सतपुली	दुर्गम	1	0	1	
		कोटद्वार	सुगम	1	1	0	
		धुमाकोट	दुर्गम	1	0	1	
		पाबौ	दुर्गम				

(Handwritten signatures and marks)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	इकाई का नाम	सुगम/दुर्गम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6	7
8	मु०कृ०अ० ऊधमसिंह नगर	—	सुगम				
		रूद्रपुर	सुगम	1	0	1	
		काशीपुर	सुगम				
9	मु०कृ०अ० नैनीताल		सुगम				
		भीमताल	सुगम	1	0	1	
		हल्द्वानी	सुगम	1	0	1	
		धारी	सुगम				
10	मु०कृ०अ० चम्पावल		दुर्गम				1 अधिसंख्यक
		लोहाघाट	दुर्गम	1	0	1	
11	मु०कृ०अ० पिथौरागढ़		दुर्गम				
		पिथौरागढ़	दुर्गम	1	0	1	
		डीडीहाट	दुर्गम	1	0	1	
		बेरीनाग	दुर्गम				
12	मु०कृ०अ० अल्मोडा		दुर्गम				
		अल्मोडा	दुर्गम	1	0	1	
		रानीखेत	दुर्गम	1	0	1	
		भिकियासैण	दुर्गम				
		बाडेछीना	दुर्गम	1	0	1	
13	मु०कृ०अ० बागेश्वर		दुर्गम				1 अधिसंख्यक
		बागेश्वर	दुर्गम	1	0	1	
15	नैनीताल	सं०कृ०नि०	सुगम	4	2	2	
16	देहरादून	कृषि निदेशालय	सुगम	4	0	4	
17	पोड़ी	अ०कृ०नि०	दुर्गम	4	0	4	
	योग			37	08	24	-5 कार्मिक स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिसंख्यक रूप से कार्यरत

नोट- उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-763/XXX-1/2008-3(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के द्वारा मृत कैंडर घोषित करने का प्रस्ताव है।




अनुरेखक के कार्मिक के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद तथा दुर्गम-सुगम में तैनात कार्मिक, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक एवं सुगम-दुर्गम में रिक्त पदों का विवरण

क्र० सं०	निदेशालय/ मण्डल/ जनपद स्तर के पदनाम	पदों का विवरण					सुगम में तैनात कार्मिकों की संख्या	दुर्गम में तैनात कार्मिकों की संख्या	दुर्गम के लिये पात्र कार्मिक	दुर्गम में रिक्त पद			सुगम के लिये पात्र कार्मिक	सुगम में रिक्त पद			अभ्युक्ति
		कुल स्वी० पद	कार्यरत	रिक्त पद						वर्तमान में रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	योग		वर्तमान में रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	योग	
				प्रतिनियुक्ति पर	वास्तविक रिक्त	कुल रिक्त											
1	अनुरेखक	37	13	—	24	24	6	7	03	19	05	24	—	05	—	05	5 कार्मिक मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों में सम्बद्ध 8 कार्मिक मानचित्रकों के रिक्त पदों पर प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं।
योग		37	13	—	24	24	6	7	03	19	05	24	—	05	—	05	


नोट- उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-763/XXX-1/2008-3(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के द्वारा मृत केंडर घोषित करने का प्रस्ताव है।



(रिंकी रावत)
प्रधान सहायक


(दिनेश जोशी)
मू०प्र०अ०


(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०क०नि० (विपणन)



(डॉ० पी०के०वर्मा)
उ०क०नि० मा०सं०


(के०पी०पाटक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शकर)
कृषि निदेशक

अनुरेखक के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में तैनात कार्मिक तथा सुगम एवं दुर्गम में तैनाती अवधि का विवरण

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	रोजानिवृत्ति की तिथि	स्थानान्तरण के लिए चिन्हित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	श्री हनुमन्नाथ	श्री गीरकनाथ	नेनीताल	मुख्य कृषि अधिकारी, उपमहानगर	उपमहानगर	14.07.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 10 माह 16 दिन	सुगम	-	39 वर्ष 04 माह 04 दिन	31.07.2019	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
	श्री गीनमल सिंह	श्री सादु राम	हरिद्वार	कृ०प्र०स०अ० रुडकी	हरिद्वार	01.07.2013 से वर्तमान तक	4 वर्ष 10 माह 28 दिन	सुगम	-	34 वर्ष 04 माह 18 दिन	31.07.2025	दुर्गम के लिए पात्र
	श्री विश्व सिंह रावत	श्री कल्याण सिंह रावत	टिहरी	कृ०प्र०स०अ० नरेशपुर	टिहरी	08.07.2029 से वर्तमान तक	8 वर्ष 10 माह 22 दिन	सुगम	-	31 वर्ष 08 माह 13 दिन	30.08.2023	दुर्गम के लिए पात्र
	श्री सन्तप्रकाश	श्री श्याम लाल	पीडी	कृ०प्र०स०अ० कोटद्वार	पीडी	01.07.2015 से वर्तमान तक	2 वर्ष 10 माह 30 दिन	सुगम	8 वर्ष 11 माह 00 दिन	29 वर्ष 03 माह 08 दिन	31.05.2018	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
	श्री गुरुजारी लाल	श्री गैडा लाल	टिहरी	कृ०प्र०स०अ० रायपुर	देहरादून	01.04.2015 से वर्तमान तक	3 वर्ष 01 माह 29 दिन	सुगम	7 वर्ष 05 माह 28 दिन	26 वर्ष 00 माह 29 दिन	31.05.2025	दुर्गम के लिए पात्र
	श्री चन्द सिंह जंगमणी	श्री नाथू सिंह	पिथौरागढ़	सं०कृ०नि०, हल्द्वानी	हल्द्वानी	18.09.2004 से वर्तमान तक	13 वर्ष 08 माह 11 दिन	सुगम	-	14 वर्ष 07 माह 11 दिन	30.08.2024	दुर्गम के लिए पात्र
	श्रीमती जानकी जोशी	स्व० श्री गिरीश चन्द जोशी	अल्मोडा	सं०कृ०नि०, हल्द्वानी	हल्द्वानी	30.04.2007 से वर्तमान तक	11 वर्ष 01 माह 00 दिन	सुगम	-	14 वर्ष 06 माह 10 दिन	31.03.2029	दुर्गम के लिए पात्र
1	श्री जीवन सिंह चिह	श्री दल्लू सिंह	वागेश्वर	मुख्य कृषि अधिकारी, वागेश्वर	वागेश्वर	01.08.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 08 माह 20 दिन	दुर्गम	24 वर्ष 10 माह 00 दिन	8 वर्ष 10 माह 03 दिन	31.01.2020	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
2	श्री उमादत्त सेगवाल	श्री भदानी दत्त	टिहरी	कृ०प्र०स०अ० नई टिहरी	टिहरी	03.05.1998 से वर्तमान तक	19 वर्ष 00 माह 25 दिन	दुर्गम	18 वर्ष 00 माह 25 दिन	-	28.02.2021	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
3	श्री धनपत सिंह ज्वाला	श्री जवर सिंह	टिहरी	कृ०प्र०स०अ० पन्ना	टिहरी	03.08.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 09 माह 27 दिन	दुर्गम	25 वर्ष 05 माह 28 दिन	-	31.05.2023	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
6	श्री सुरेन्द्र सिंह राजवाण	श्री अमला सिंह	पीडी	कृ०प्र०स०अ० कर्तविकानगर	टिहरी	01.08.2015 से वर्तमान तक	2 वर्ष 09 माह 29 दिन	दुर्गम	33 वर्ष 05 माह 23 दिन	-	26.02.2022	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
7	श्री मजरा सिंह राणा	श्री अतर सिंह	उत्तरकाशी	कृ०प्र०स०अ० गंगो	उत्तरकाशी	13.08.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 09 माह 17 दिन	दुर्गम	34 वर्ष 02 माह 17 दिन	-	31.03.2023	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
13	श्री सुधाभा लाल टण्डा	श्री लुत्ती लाल	बमोली	कृ०प्र०स०अ० अमली	बमोली	19.08.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 09 माह 12 दिन	दुर्गम	37 वर्ष 03 माह 11 दिन	-	31.07.2019	धारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक




कृषि विभाग में कार्यरत अनुप्रेषणों की दुर्गम में तैनात कर्मियों की कार्यावधि के आधार पर अवशेषी कम में सूची

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (रक से कम तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	स्थानान्तरण हेतु विन्दिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	12	14
1	श्री सुदामा लाल टाप्ता	श्री लुत्ती लाल	बनोली	क०म०स०अ० धराली	बनोली	18.08.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 09 माह 12 दिन	दुर्गम	37 वर्ष 03 माह 11 दिन	-	28.7.1959	31.07.2015	घारा-3 (ब) के अन्तर्गत वरिष्ठ कर्मिक
2	श्री भजन सिंह राणा	श्री अतर सिंह	उत्तरकाशी	क०म०स०अ० मोरी	उत्तरकाशी	13.08.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 09 माह 17 दिन	दुर्गम	34 वर्ष 02 माह 17 दिन	-	18.3.1963	31.03.2023	घारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कर्मिक
3	श्री सुरेन्द्र सिंह सजवाण	श्री कमला सिंह	पौड़ी	क०म०स०अ० कीर्तनगर	टिहरी	01.08.2015 से वर्तमान तक	2 वर्ष 09 माह 29 दिन	दुर्गम	33 वर्ष 06 माह 23 दिन	-	21.02.1962	28.02.2022	घारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कर्मिक
4	श्री धनपत सिंह ज्योरा	श्री जबर सिंह	टिहरी	क०म०स०अ० बम्हा	टिहरी	03.08.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 09 माह 27 दिन	दुर्गम	25 वर्ष 05 माह 28 दिन	-	15.5.1963	31.05.2023	घारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कर्मिक
5	श्री जीवन सिंह बिष्ट	श्री बच्चो सिंह	बागेश्वर	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर	बागेश्वर	01.06.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 09 माह 29 दिन	दुर्गम	24 वर्ष 10 माह 00 दिन	6 वर्ष 10 माह 00 दिन	01.01.1960	31.01.2020	घारा-3 (ज) के अन्तर्गत वरिष्ठ कर्मिक
6	श्री उमादत्त सेमवाल	श्री भवानी दत्त	टिहरी	क०म०स०अ० नई टिहरी	टिहरी	06.05.1999 से वर्तमान तक	19 वर्ष 00 माह 25 दिन	दुर्गम	19 वर्ष 00 माह 25 दिन	-	01.02.1961	20.02.2021	घारा-3 (अ) के अन्तर्गत वरिष्ठ कर्मिक







कृषि विभाग में कार्यरत अनुदेशकों का सुगम में तैनात कार्मिकों की कार्यवधि के आधार पर अवरोही क्रम में सूची

क्र० सं०	कार्यवाही का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती वायसलय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	संविदावधि की तिथि	जन्मतिथि	सम्मानानुसंग हेतु धिनिष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री संकरनाथ	श्री कैरवनाथ	बैनीताल	मुख्य कृषि अधिकारी, कछमसिंहनगर	कछमसिंहनगर	14.07.2010 से वर्तमान तक	7 वर्ष 10 माह 18 दिन	सुगम	-	38 वर्ष 04 माह 04 दिन	2.7.1959	24.07.2019	घारा-3 (ब) के अन्तर्गत परिष्कृत कार्मिक
2	श्री वैजयात सिंह	श्री साधु राम	हरिद्वार	कृ०मू०सं०अ० रुद्रकी	हरिद्वार	01.07.2013 से वर्तमान तक	4 वर्ष 10 माह 29 दिन	सुगम	-	34 वर्ष 04 माह 16 दिन	10.7.1965	31.07.2025	दुर्गम के लिए पात्र
3	श्री निरंजन सिंह रावत	श्री कल्याण सिंह रावत	टिहरी	कृ०मू०सं०अ० नरेन्द्रनगर	टिहरी	08.07.2009 से वर्तमान तक	8 वर्ष 10 माह 22 दिन	सुगम	-	31 वर्ष 08 माह 13 दिन	8.6.1963	30.08.2023	दुर्गम के लिए पात्र
4	श्री चन्द्रप्रकाश	श्री श्याम लाल	पौड़ी	कृ०मू०सं०अ० कोटद्वार	पौड़ी	01.07.2015 से वर्तमान तक	2 वर्ष 10 माह 30 दिन	सुगम	8 वर्ष 11 माह 08 दिन	29 वर्ष 03 माह 08 दिन	14.5.1956	24.05.2018	घारा-3 (ब) के अन्तर्गत परिष्कृत कार्मिक
5	श्री गुलजारी लाल	श्री गैड्या लाल	टिहरी	कृ०मू०सं०अ० रायपुर	देहरादून	01.04.2015 से वर्तमान तक	3 वर्ष 01 माह 29 दिन	सुगम	7 वर्ष 05 माह 28 दिन	26 वर्ष 00 माह 29 दिन	13.5.1966	31.05.2025	दुर्गम के लिए पात्र
6	श्री वन्द सिंह जगन्नाथी	श्री नाथू सिंह	बिछौरागढ़	सं०कृ०निदे०, इल्हानी	इल्हानी	18.09.2004 से वर्तमान तक	13 वर्ष 08 माह 11 दिन	सुगम	-	14 वर्ष 07 माह 11 दिन	2.6.1974	30.06.2034	दुर्गम के लिए पात्र
7	श्रीमती जानकी जोशी	स० श्री विसेश चन्द जोशी	अल्मोड़ा	सं०कृ०निदे०, इल्हानी	इल्हानी	30.04.2007 से वर्तमान तक	11 वर्ष 01 माह 00 दिन	सुगम	-	14 वर्ष 06 माह 10 दिन	15.3.1979	31.03.2039	दुर्गम के लिए पात्र

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

अनुरेखक के सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची - (धारा-9) अनुसार

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती अधिष्ठान/स्थल	सुगम में कुल तैनाती अवधि	दुर्गम में रिक्तियों का विवरण				अभियुक्ति
						वर्तमान रिक्तियाँ		सम्भावित रिक्ति	स्थल	
						कुल संख्या	स्थल			
7	8	9	10	11						
1	श्री मैनपाल सिंह	अनुरेखक	हरिद्वार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	34 वर्ष 04 माह 16 दिन	19	अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल, पौडी	0		
2	श्री विक्रम सिंह रावत	अनुरेखक	टिहरी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर	31 वर्ष 08 माह 13 दिन		कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर			
3	श्री गुलजारी लाल	अनुरेखक	टिहरी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर	26 वर्ष 29 दिन		कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना			
4	श्री चन्द्र सिंह जंगपानी	अनुरेखक	पिथौरागढ़	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी	14 वर्ष 07 माह 11 दिन		कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत			
5	श्रीमती जानकी जोशी	अनुरेखक	अल्मोडा	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी	14 वर्ष 06 माह 10 दिन		कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोडा			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमकोट			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौडी			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट			
							कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट			

नोट- उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-763/XXX-1/2008-3(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के द्वारा मृत कैंडर घोषित

करने का प्रस्ताव है।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची -तालिका संख्या-3 के अनुसार (धारा-10)


क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती अधिष्ठान /स्थल	सुगम में कुल तैनाती अवधि	सुगम में रिक्तियों का विवरण				अभियुक्ति
						वर्तमान रिक्तियों		सम्भावित रिक्ति		
						कुल संख्या	स्थल	कुल संख्या	स्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—शून्य—										



(रिंकी रावत)
प्रधान सहायक


(दिनेश किशोरी)
मु०प्र०अ०


(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०क०नि० (विपणन)


(डॉ० प्र०के०वर्मा)
उ०क०नि० मा०स०


(के०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक